

26 जुलाई 2019

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया की कुलाधिपति और कुलपति ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और शताब्दी महोत्सव की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर और मणिपुर की माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डा. नजमा हेपतुल्ला ने, संभवतः अक्टूबर या नवंबर 2019 आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियों और भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को उसके लिए बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के बारे में विचार-विमर्श किया।

मणिपुर भवन, नयी दिल्ली में दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में, कुलपति ने माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हाल में हुई अपनी मुलाकातों के बारे में भी कुलाधिपति को बताया।

माननीय राष्ट्रपति से इस महीने के शुरू में हुई अपनी मुलाकात के दौरान कुलपति ने उन्हें जामिया के अकादमिक और रिसर्च गतिविधियों की जानकारी देने के साथ ही, उनसे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आने की गुज़ारिश की थी।

माननीय प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने शताब्दी महोत्सव के लिए विशेष अनुदान और जामिया में मेडिकल कॉलेज-कम-हॉस्पिटल स्थापित करने में उनसे मदद करने की अपील की थी और माननीय प्रधानमंत्री ने कुलपति को मदद का भरोसा दिलाया था।

कुलपति और कुलाधिपति ने जामिया के शताब्दी महोत्सव की योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की।

प्रो अख्तर ने, कुलाधिपति को नए अकादमिक सत्र, परीक्षाओं तथा दाखिले की प्रक्रियाओं सहित, विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों के अच्छे तरीके से हो जाने के बारे में बताया।

माननीय राज्यपाल ने कुलपति को बताया कि वह मणिपुर में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन करने जा रही हैं जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षकों और छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जामिया की रैंकिंग में लगातार हो रहे सुधार पर संतोष जताते हुए उन्होंने इसके अकादमिक और रिसर्च कार्यों को और ज़्यादा सुधारने के लिए, कुलपति की ओर से की जा रही कोशिशों की सराहना की।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक